NDA SECURITIES LIMITED

Member: National Stock Exchange of India Ltd.

: Bombay Stock Exchange Ltd.

: National Securities Depository Ltd.

Registered & Corporate Office: E-157, 2nd Floor, Kalkaji, New Delhi-110019

Phone: 011-46204000 (100 lines)

Email: info@ndaindia.com, website: www.ndaindia.com

CIN: L74899DL1992PLC050366 Dated: 16.08.2022

To.

The Manager (Listing)

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai – 400 001

<u>Sub:</u> Submission of Newspapers Advertisement of Un-Audited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2022.

Ref: NDA Securities Ltd. Code No. 511535

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to the applicable Regulations of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th June, 2022, as published in "Financial Express" (English Newspaper) and "Veer Arjun" (Hindi Newspaper) on 14th August, 2022.

This is for your kind information and records.

Thanking you,

Yours faithfully

For NDA Securities Limited

Sanjay Agarwal Managing Director DIN: 00010639

FE SUNDAY

(Amount in 'Lakhs' except EPS'



Dated: 13.08.2022

punjab national bank ...the name you can BANK upon!

Circle office: Ramganga Vihar, Kanth Road, Moradabad **POSSESSION NOTICE** [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 20021

Date of

Whereas, The undersigned being the Authorised officer of the PUNJAB NATIONAL BANK, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice on the date mentioned against account and stated herein calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, The borrower/gurantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the PUNJAB NATIONAL BANK, for the amounts and interest thereon. The borrowers attentions is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the act, in respect of time available to redeem the secured asset, Details of properties where possession had been taken is as follows:

Sr.	Name of the Borrower/Guarantor/Mortgagor/	Description of the Properties	Outstanding Amount	Demand Notice
No.	Branch Name	(Movable/Immovable)	u/s 13(2)	Date of Possession
1.	Borrower: Sh. Vineet Bhatnagar S/o Sh.	EM of Property Situated at Villa No: G-12, Sai Garden	Rs. 46,79,287/-	11.01.2022
	J.B.S. Bhatnagar (Deceased), Smt. Poonam Bhatnagar W/o Sh. Vineet Bhatnagar (Borrower & Legal Heir), Sh. Pulkit Bhatnagar S/o Late Sh. Vineet Bhatnagar (Legal Heir) & Sh. Arvind Kumar Sethi s/o Late Sh. KL Sethi (Guarantor) Branch: Kanth Road, Moradabad	Colony, Kanth Road, Moradabad (UP), Area 251 sq. mtrs. (In the name of Smt. Poonam Bhatnagar w/o Sh. Vineet Bhatnagar), Registered in Bahi No. 01 Zild No. 9615, Pages 171-208, Serial No. 1772, on Dated 02.02.2015 at SRO-II, Moradabad (UP) Bounded by: South - East: G-13, North-West: G-11, North- East: Wave Green, South - West: Road 18 Meter Wide	as on 31.03.2021 + int. & other charges	10.08.2022
2.	Borrower: M/s DK Food, Sh. Abhishek Dhariwal S/o Sh. Rajendra Singh	A Shop situated at Mohalla - Milan Vihar (Krishana Puram), Kushalpur Road, Tehsil & District- Moradabad,	Rs. 63,29,841.86/-	04.05.2022
	(Proprietor) & Smt. Seema Singh w/o Sh. Jaspal Singh (Guarantor & Mortgagor) Branch : KUMS-Majhola, Moradabad	(UP), Area 12.50 sq.mtrs. (In the name of Smt. Seema Singh w/o Sh. Jaspal Singh) Registered in Bahi No. 1, zild No. 15473, Pages: 283-332, Serial No: 13265, Dated 24.07.2019, SRO-I, Moradabad, Bounded: On the North	Rs. 63,29,841.86/- as on 02.05.2022 + int. & other charges	11.08.2022

Gupta, On the West by : Rasta 15 Feet Wide

by: House of Gupta Ji, On the South by: Sadak Sarkari 12 Meter Wide. On the East by : Shop of Smt. Renu

Place : New Delhi

Date: 13.08.2022

Authorized Officer, Punjab National Bank

WEDICO INTERCONTINEN ALLIMITED

CIN: L24100GJ1984PLC111413

Regd. Office: 1-5th Floor, Adit Raj Arcade, Nr Karma Shreshtha Tower, 100 Ft Rd, Satellite, Ahmedabad, Gujarat – 380015 Phone: 079 2674 2739 Email: mail@medicointercontinental.com Website: www.medicointercontinental.com Extracts of unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2022

	3	Stan	dalone		Consolidated					
Particulars	Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	months ended 31.03.2022	Corresponding (months ended in previous year on 30.06.2021 (Unaudited)	Previous year ended 31.03.2022 (Audited)	Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	months ended 31.03.2022	Corresponding (months ended in previous year or 30.06.2021 (Unaudited)	year ended		
Total income from operations (net)	619.64	786.61	1123.54	3942.64	1292.97	1463.67	2356.46	7456.63		
Net Profit/(Loss)for the period										
(before tax and exceptional items)	50.05	47.47	44.90	182.80	115.53	123.91	99.27	423.05		
Net Profit/(Loss)for the period before tax										
(after exceptional items)	50.05	47.47	44.90	182.80	115.53	123.91	99.27	423.05		
Net Profit / (Loss) for the period after tax	37.14	30.27	33.47	131.20	86.13	86.84	74.00	309.97		
Total Comprehensive Income for the period	37.14	30.27	33.47	131.20	86.13	86.84	74.00	309.97		
Paid-up Equity Share Capital										
(Share of Rs. 10/- each)	324.90	324.90	324.90	324.90	324.90	324.90	324.90	324.90		
Earning per equity share										
Basic	1.14	0.93	1.03	4.04	2.65	2.67	2.28	9.54		
Diluted	1.14	0.93	1.03	4.04	2.65	2.67	2.28	9.54		
Note:										

The above is an extract of the detailed format of unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of unaudited Financial Results along with Limited Review Report for the quarter ended 30th June, 2022 is available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the website of the Company (www.medicointercontinental.com).

The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on August 13, 2022. The above results reviewed by statutory auditors and who have expressed an unmodified opinion on these results as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.

The Financial Results of the Company has been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) notified under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016 and other accounting principles generally accepted in India.

For Medico Intercontinental Limited

Samir Shah Place: Ahmedabad Managing Director Date: 13/08/2022 DIN: 03350268

INTEGRATED TECHNOLOGIES LIMITED Reg. Office: C-24, Defence Colony, New Delhi-110024 CIN- L31909DL1995PLC277176 Tel: +91-11- 41552579,

Place: Moradabad

Email: info@integratedtech.in Website: www.integratedtech.in STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30'TH JUNE, 2022

(Rs. In lacs, except per share data)

S.	PARTICULARS	QUA	ENDED ON		
۱o.	PARTICULARS	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)	30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)
1	Revenue from operations		17070-701		- 000 - 000
100	(a) Net sales/ Income from operations	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Other operating Income	0.00	12.01	0.00	12.01
	Total Revenue from operations	65,000,000	57705330000	30000	0225933330
u s	{1(a)+1(b)}	0.00	12.01	0.00	12.01
2 3 4	Other Income	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Total Income (1+2)	0.00	12.01	0.00	12.01
4	Expenses	archite.	A00038888	00048167	1000000000
	a) Cost of material consumed	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Purchase of stock in trade	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) Changes in inventories of finished				
	goods, work in progress and				
	stock in trade	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) Employee benefits expense	0.00	1.05	1.05	4.21
	e) Finance cost	0.00	0.00	0.00	0.00
	f) Depreciation expense	0.00	0.00	0.00	0.00
	g) Other Expenses	0.01	9.65	0.23	11.97
	Total Expenses {4(a) to 4(g)}	0.00	10.70	1.28	16.18
5	Total profit before exceptional and	77/03/2006	86000000	294239417	20000000
	extraordinary items and tax (3-4)	0.00	1.31	(1.28)	(4.17)
6	Exceptional Items	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Profit before taxes (5-6)	0.00	1.31	(1.28)	(4.17)
8	Tax Expense	0.2822	22261	19527	131037
	Current Tax	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deferred Tax	0.00	(9.87)	0.00	(9.87)
	Total Tax Expense	0.00	(9.87)	0.00	(9.87)
9	Profit for the period after tax (7-8)	0.00	(8.56)	(1.28)	(14.04)
10	Other Comprehensive Income (OCI)	1			
	i) items that will be reclassified to	0.00	0.00	0.00	0.00
	Profit and Loss (net of tax)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) items that will not be reclassified	0.00	0.00	0.00	0.00
11	to Profit and Loss (net of tax)	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Total Comprehensive Income for the period (9 + 10)	0.00	(8.56)	(1.28)	(14.04)
12	Paid-up equity share capital (Equity	0.00	(0.30)	(1.20)	(14.04)
12	Share of Rs. 10/- each, fully paid)	478.15	478.15	478.15	478.15
13	Other Equity	470.13	4/0.10	470.13	970.10
44	Consider Equity				

a) Basic

b) Diluted

14 | Earnings per share [Nominal value of shares Rs. 10 (previous year

Rs. 10)] (not annualised)

The above financial results are prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with the relevant Rules thereunder. The Statutory Auditors of Integrated Technologies Limited ('the Company') have carried out limited review of the above results pursuant to Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and have issued an unmodified review opinion.

0.00

0.00

(0.18)

- The Company operates in a single operating segment 'printed circuit board'. Hence there is no separate reportable segment as per Ind AS 108 'Operating Segments.
- The above audited results for the quarter ended 30th June 2022 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 13th August, 2022. The figures for quarter ended 31st March 2022 are balancing figures between the audited figures of the full financial year and the reviewed year-to-date figures up to the third quarter of the
- The certificate obtained from the Managing Director and CFO in respect of above results in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been placed before Board of Directors.
- Previous period figures are regrouped/reclassified in line with the current period. For and on behalf of the Board of Directors of
- Integrated Technologies Limited

Place: New Delhi Date: August 13th 2022

(Rajeev Bali) Managing Director DIN: 00772978

(0.29)

(0.29)

(0.03)

(0.03)

NDA SECURITIES LIMITED CIN: L74899DL1992C050366

Registered Office: E-157, Second Floor, Kalka Ji, New Delhi- 110019 Phone: 91-46204000, Fax: 91-11-46204050, Email: info@ndaindia.com, Website: www.ndaindia.com

Statement of Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022 (Amount Rs. in Lacs)

	Standalone		Consolidated				
Quarter Ended		Year Ended	•	Year Ended			
30.06.2022	30.06.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.06.2021	31.03.2022		
Un-A	udited	Audited	Un-Au	ıdited	Audited		
167.17	175.54	802.50	167.36	175.73	803.38		
12.72	16.30	86.09	11.97	15.39	82.21		
9.42	16.38	77.89	8.68	15.47	74.01		
-1.39	0.13	7.50	-1.39	0.13	7.50		
8.03	16.51	85.39	7.29	15.60	81.51		
509.22	509.22	509.22	509.22	509.22	509.22		
		319.31			289.89		
0.16	0.32	1.68	0.14	0.31	1.60		
	8.03 509.22	Quarter Ended 30.06.2022 30.06.2021 Un-Audited 175.54 12.72 16.30 9.42 16.38 -1.39 0.13 8.03 16.51 509.22 509.22	Quarter Ended Year Ended 30.06.2022 30.06.2021 31.03.2022 Un-Audited Audited 167.17 175.54 802.50 12.72 16.30 86.09 9.42 16.38 77.89 -1.39 0.13 7.50 8.03 16.51 85.39 509.22 509.22 509.22 319.31 319.31	Quarter Ended Year Ended Quarter Ended 30.06.2022 30.06.2021 31.03.2022 30.06.2022 Un-Audited Audited Un-Audited 12.72 16.30 86.09 11.97 9.42 16.38 77.89 8.68 -1.39 0.13 7.50 -1.39 8.03 16.51 85.39 7.29 509.22 509.22 509.22 509.22 319.31 319.31 319.31	Quarter Ended Year Ended Quarter Ended 30.06.2022 30.06.2021 31.03.2022 30.06.2022 30.06.2021 Un-Audited Audited Un-Audited 167.17 175.54 802.50 167.36 175.73 12.72 16.30 86.09 11.97 15.39 9.42 16.38 77.89 8.68 15.47 −1.39 0.13 7.50 −1.39 0.13 8.03 16.51 85.39 7.29 15.60 509.22 509.22 509.22 509.22 509.22 319.31<		

Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock exchange website (www.bseindia.com) and Company's Website (www.ndaindia.com)

For and on behalf of the Board of Directors for NDA Securities Limited

(Sanjay Agarwal) **Managing Director** DIN: 00010639

SOFTTECH ENGINNERS LIMITED

CIN: L30107PN1996PLC016718

Registered Office: SoftTech Towers, S NO 1/1A/7 8 15 16 17 Plot No. B,C,D, 1-Baner, Opp. Royal Enfield Showroom, Baner Road, Pune: 411045. Tel: +91 20 67183711 Website: www.softtech-engr.com Email Id: compliance@softtech-engr.com EXTRACTS OF STANDALONE AND CONSOLDIATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30™ JUNE, 2022 (Rs. in Lakhs)

2000	Particulars	Standalone				Consolidated				
SI.		Quarter Ended			Year Ended	Quarter Ended			Year Ended	
No.		30-06-2022 Unaudited	31-03-2022 Unaudited	30-06-2021 Unaudited	31-03-2022 Audited	30-06-2022 Unaudited	31-03-2022 Unaudited	30-06-2021 Unaudited	31-03-202 Audited	
1.	Total Income from Operations	1213.86	1,657.85	1101.75	5,745.67	1213.86	1,657.85	1101.75	5,745.67	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	108.3	248.00	133.69	773.61	96.82	219.59	110.23	661.06	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	108.3	248.00	133.69	773.61	96.82	219.59	110.23	661.06	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	81.26	185.15	99.8	577.57	69.78	148.35	76.34	465.02	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	85.54	202.29	99.8	594.71	73.45	163.46	80.59	480,13	
6.	Equity Share Capital	9	. 8	12	1,015.48	, # ,	940		1015.48	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)#) =			7,817.72	*	West.	.	7454.88	
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/-each) (for continuing and discontinued operations) – 1. Basic: 2. Diluted:	0.80 0.80	1.82 1.82	1.05 1.05	5.89 5.89	0.70 0.70	1.60 1.60	0.84 0.84	4.89 4.88	

a) The above is an extract of the detailed format of the Quarterly Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2022. reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 12th August, 2022 and the same is filed with the BSE. Limited and National Stock Exchange of India Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Standalone and Consolidated Financial Results are available on the website of Stock Exchanges at National Stock Exchange (www.nseindia.com) and Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.softtech-engr.com). For SoftTech Engineers Limited

Place : Pune Vijay Gupta Date: 12.08.2022 CEO & Managing Director

KHANDELWAL EXTRACTIONS LIMITED CIN: L24241UP1981PLC005282; Regd. Office: 51/47, Naya Ganj, Kanpur- 208 001,

SI. No.	Particulars	3 Months Ended 30.06.2022 Unaudited	Previous Year Ended 31.03.2022 Audited	Corresponding 3 Months Ended 30.06.2021 Unaudited
	Total income from operations	104	0.90	29
	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after	7.81	42.78	(8.66)
9.	Exceptional and/or Extraordinary items)	7.81	42.78	(8.66)
	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period	7.81	29.71	(8.66)
	[Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] Paid-up Equity Share Capital	7.81	29.71	(8.66)
	(Face value of Rs. 10/- per share)	85.01	85.01	85.01
	Reserves (excluding Revaluation Reserve)		10,7878	30,000
8.	Basic & Diluted Earnings per share (of Rs.10/- each) (For continuing and discontinuing	107	120.61	25
	operations) (Not Annualised) (in Rs.)	0.92	3.49	(1.02)

Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website: www.bseindia.com and on the Company's website: www.khandelwalextractions.com For and on behalf of the Board of Directors Place: KANPUR

Director (Finance) & CFO Date: 13.08.2022 DIN: 00161831

ROADWAYS INDIA LIMITED CIN NO: L63090DL1987PLC319212 Regd. Office: Plot No. 53-A/8, Rama Road Industrial Area, New Delhi- 110015 Email:corporate@roadwaysindia.com, website: www.roadwaysindia.com Tel.: 011-47192065, Fax: 011-25815456

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30™ JUNE, 2022

PATICULARS		STANDALONE						
			Ended 31-Mar-22	Ended 30-Jun-21	Ended 31-Mar-22			
4,5		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited			
1	Total income from operations (net)	1,449.95	1,254.02	1,194.85	4,707.14			
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax Exceptional and Extra Ordinary Items)	58,37	(14.49)	(9.79)	6.78			
3	Net Profit /(Loss) for the period before tax (after Exceptional and Extra- ordinary items)	58.37	(14.49)	(9.79)	6.78			
4	Net Profit /(Loss) for the period after tax	45.47	(26,56)	(9.05)	(2.73)			
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]							
6	Paid Up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	352.02	352.02	352.02	352.02			
7	Reserves excluding Revaluation Reserves as per balance sheetof previous accounting year	335	7	109	1,307.43			
8	Earning Per Share (not annualised) a) Basic b) Diluted	0.13 0.13	1.4000000000					

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available. on the websites of the Stock Exchange(s): www.cse-india.com and www.msei.in and on Company's website: www.roadwaysindia.com.
 - The above result was reviewed by the Audit Committee and was approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 13.08.2022. The Statutory Auditor of the Company has carried out the limited review of the financial results. For Roadways India Limited

Date: 13.08.2022 Place : New Delhi

Managing Director FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

Authority under which corporate debtor Registrar of Companies - Chandigarh is incorporated / registered Corporate identity number/limited liability U45209CH2011PTC033190 identification number of corporate debtor Address of the registered office & principal SCO No. 196-197, Ground Floor, Sector 34-A, office (if any) of corporate debtor Chandigarh-160022 IN (as per the MCA website) Insolvency commencement date of the 31/05/2022 corporate debtor

vi vls finance limit Regd. Office: 1st Floor, 90, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi- 110020

Ph: 91(11) 46656666 Fax: 91(11) 46656699 CIN: L65910DL1986PLC023129 Email: vls@vlsfinance.com; Website: www.vlsfinance.com STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022

					(Rupees in	Lakhs except	t Earning per	Share data
		STAN	IDALONE	CONSOLIDATED				
		Quarter Ende	d	Year Ended		Quarter Ended		Year Ended
Particulars	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.202
	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audite
1	2	3	4	5	6	7	8	
Revenue from continuing operations	426.46	2,983.64	8,025.76	28,628.73	465.39	3,116.20	8,551.27	23,234.4
Net Profit/(Loss) for the period before tax (Before Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing operations	(5,808.25)	2,558.08	7,531.19	26,665.14	(5,822.01)	2,582.46	8,008.63	21,001.9
Net Profit/(Loss) for the period before tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing operations	(5,808.25)	2,558.08	7,531.19	26,665.14	(5,822.01)	2,582.46	8,008.63	21,001.9
Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing operations	(4,334.85)	2,827.82	6,812.56	25,438.94	(4,342.05)	4,285.76	7,217.51	21,022.4
Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from discontinuing operations		00	30	14		K 100	100	
Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing and discontinuing operations	(4,334.85)	2,827.82	6,812.56	25,438.94	(4,342.05)	4,285.76	7,217.51	21,022.4
Total Comprehensive Income for the period(Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income for the period)	(16,919.43)	(26,785.28)	29,069.29	36,321.37	(28,795.66)	(55,643.84)	63,075.90	54,101.0
Paid Up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- Per Share)	3,878.42	3,878.42	3,878.42	3,878.42	3,878.42	3,878.42	3,878.42	3,878.4
Earning Per Share (before Extraordinary items) (of Rs.10/each)	(**)	(**)	(* *)		(**)	(**)	(**)	
-Basic (not annualised) (**)	(11.21)	7.31	17.62	65.80	(11.23)	11.09	18.67	54.3
-Diluted (not annualised) (**)	(11.21)	7.31	17.62	65.80	(11.23)	11.09	18.67	54.3
Earning Per Share (after Extraordinary items) (of Rs.10/-each)	(**)	(**)	(**)		(**)	(**)	(**)	
-Basic (not annualised) (**)	(11.21)	7.31	17.62	65.80	(11.23)	11.09	18.67	54.3
-Diluted (not annualised) (**)	(11.21)	7.31	17.62	65.80	(11.23)	11.09	18.67	54.3
Mater								

- 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Periodical Financial Results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of Quarterly/Periodical financial Results are available on the website of the Company (www.vlsfinance.com) and on the website of the stock exchanges viz. BSE Ltd (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Ltd.(www.nseindia.com) and the Calcutta Stock Exchange (www.cse-india.com). The specified items of the standard financial results of the Company for the quarter ended Jun 30, 2022 are given above.
- 2. The above un-audited financial results for the quarter ended 30.06.2022 were approved and taken on record in the Board Meeting held on 13.08.2022 after being reviewed and recommended by the Audit Committee on the same date and have been subjected to limited review by the statutory auditors of the Company. 3. The figures for the quarter ended 31.03.2022 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published year-to-date figures up to third quarter of the relevant financial year.
- Previous period figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to conform to current period classification.

Place: New Delhi

By order of the Board for VLS Finance Limited S.K. AGARWAL Managing Director DIN:00106763

Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 RELEVANT PARTICULARS Name of the Corporate Debtor M/S GUPTA BUILDERS AND PROMOTERS PRIVATE LIMITED Date of incorporation of Corporate Debtor | 24/08/2011

Date of invitation of expression of interest 14/08/2022 8. Eligibility for resolution applicants under Details can be sought by email at section 25(2)(h) of the Code is available at: cirp.gbp@gmail.com Norms of ineligibility applicable under Details can be sought by email at section 29A are available at: cirp.gbp@gmail.com Last date for receipt of expression of interest | 29/08/2022 (by 19:00 hours by sending an email to cirp.gbp@gmail.com) 11. Date of issue of provisional list of 08/09/2022 prospective resolution applicants 2. Last date for submission of objections to 13/09/2022 provisional list 13. Date of issue of final list of prospective 23/09/2022

resolution applicants 14. Date of issue of information memorandum, 13/09/2022 evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information :1

Request for Resolution Plan, Evaluation Matrix, Information Memorandum and other information will be shared by the Resolution Professional by email only with the qualified and shortlisted Prospective Resolution Applicants meeting eligibility criteria as set out by the committee of creditors, after receiving confidentiality undertaking as per section 29(2) of the IBC and other requirements of IBC,

2016 read with relevant CIRP regulations. 6. Last date for submission of resolution plans | 13/10/2022

Manner of submitting resolution plans to resolution professional:

1. The Resolution Plan & accompanying documents is to be submitted in an electronic form (in a password protected file), by an email sent to cirp.gbp@gmail.com; and

2. The Password of the password protected file containing the Resolution Plan & other documents, as mentioned in 1 above, along with the hard copy of the Resolution Plan & accompanying documents should be submitted to the Resolution Professional, in a Sealed envelope, by Post / by hand, at F-1, Milap Nagar, Uttam Nagar, New Delhi-110059.

Estimated date for submission of resolution 12/11/2022

plan to the Adjudicating Authority for approval

23. Date of publication of Form G

New Delhi

Name and registration number of the

Mukesh Gupta

Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P-01494/2018-2019/12254 resolution professional

Name, Address & e-mail of the resolution | Mukesh Gupta professional, as registered with the Board Address: F-1, Milap Nagar, Uttam Nagar, New

Delhi-110059. Email: camukeship@rediffmail.com Address and email to be used for Address: F-1, Milap Nagar, Uttam Nagar, correspondence with the resolution New Delhi-110059. Email: cirp.gbp@gmail.com

14/08/2022

MUKESH GUPTA

professional Further Details are available at or with Further details can be sought by email at cirp.gbp@gmail.com

Resolution Professional for Gupta Builders and Promoters Private Limited Date: 14.08.2022 Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P-01494/2018 -2019/12254

financialexp.epa

Date: 13-08-2022



योगी ने वॉर मेमोरियल पर पुष्पचक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि

लखनऊ (वीअ)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम देश की आजादी के अमृत महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। आज से 75 वर्ष पूर्व यह देश पराधीन था। अनगिनत बलिदानों के क्लास्वरूप 15 अगस्त यन 1947 को हमारे देश को स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। आजादी के बाद भी भारत की सुरक्षा, एकता व अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए 1947-48, 1962, जबुरन ननार रखन का तिए 1947-48, 1952, 1971 तथा 1999 में हुए युद्धों से देश को जूझना पड़ा था। अनेक अन्य अवसरों पर भी भारत के बहादुर जवानों ने देश की एकता व अखण्डता को बहादुर जवानां ने देश की एकता व अखण्डता को बनाए रखते हुए देश की खाधीनता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण शोगरान दिया। मुख्यमत्री जी आज यह प्रदेश सेन्द्रल कमाण्ड में वीरता पुरस्कारों से असकृत विजेताओं एवं वीर नारियों को 'आजादी के अमृत महोत्यव' पर साम्पर्णि पुरस्कार से अलकुत विजताओं एवं वार नार्या को 'आजादी के अमृत महोत्सव' पर सम्मानित करने के पश्चात, इस अवसर पर आयोजित समारोइ को सम्बोधित कर रहेथे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने परमवीर चन विजेता शहीद कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय के पिता श्री गोपी चन्द् पाण्डेय, कीर्ति चन से सम्मानित मेजर अशोक कुमार सिंह, वीर का से सम्मानित कर्नल विमल किशनदास बैजल, मेजर विष्णु स्वरूप



उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित कारते हुए।

शर्मा, शहीद हवलदार कुंवर सिंह चौधरी की पत्नी वीर नारी श्रीमती लक्ष्मी देवी, शहीद नायक राजा सिंह की पत्नी वीर नारी श्रीमती चन्द्रा देवी, मेजर धीरेन्द्र नाथ सिंह, क्रिगेडियर नवीन सिंह, शौर्य चम से सम्मानित शहीद मेजर कमल कालिया की पत्नी बीर नारी श्रीमती अर्चना

कालिका, शहीद मेजर समीर उल इस्लाम पत्नी श्रीमती फौजिया इस्लाम, शहीद ले० हरि सिंह बिष्ट की माता श्रीमती शान्ति बिष्ट, ऑनरेरी कैप्टन श्री चंचल सिंह तथा शहीद कर्नल मुर्नीद जाध राय की पत्नी वीर जारी श्रीमती पियंका राय को सम्मानित किया।

कांग्रेस को हमें देशभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं: करंदलाजे मंगलुरु, (भाषा)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

शोभा करंदलाजे ने शनिवार को जहा कि कांग्रेस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को देशभवित सिखाने की जरूरत नहीं है और संघ परिवार उन लोगों से सीख नहीं लेगा चाहता जिन्होंने पाकिस्तान और चीन से हाथ मिलाया है। करंदलाजे ने उडुपी में पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस उन लोगों की पार्टी है जिन्होंने इटली और यूरोप में भारत का अपमान किया है। करंदलाजे ने कहा कि कांग्रेस को हमेशा राष्ट्रीय स्वयं सेवक को नीचा दिखाने में खुशी मिलती है और दावा करती है कि उसने अकेले ही आजादी हासिल की है। उन्होंने कहा। आरपसपस के तर और पर में देशभवित है

देने में कोई परेशानी नहीं : मुख्यमंत्री बघेल

रायपुर, (वीअ)। छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बचेल ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार को मंत्री टीएस सिंहदेव के रिश्तेदार वीरभद्र प्रताप सिंह की मौत की जांच का आदेश देने में कोई परेशानी नहीं है। सरगुजा जिले के लुंद्धा जनपद

पंचायत के उपाध्यक्ष वीरभद्र पताप सिंह उर्फ सचिन बाबा (42) का शव शुक्रवार को बिलासपुर जिले में रेल पटरी के पास से बरामद हुआ था। पुलिस को संदेह है कि वह दुर्ग-अंबिकापुर एक्सप्रेस में यात्रा के दुईटनावश रेलगाडी से गिर गए होंगे।राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने घटना की न्यायिक जांच की मांग करते हुए सिंह की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होने का आरोप लगाया है।भाजपा द्वारा मामले की न्यायिक जांच की मांग के संबंध में सवाल करने पर



वीरभद्र प्रताप सिंह की मौत की जांच का आदेश

बधेल ने यहां संवाददाताओं से कहा, कल मेरी टीएस सिंहदेव जी (घटना को लेकर) बात हुई थी। उन्होंने इस प्रकार से कोई शंका जाहिर नहीं की। यदि परिवार सिंह के) के लोग चाहते हैं, तो हमें घटन की जांच कराने में कोई परेशानी नहीं है। वीरभद्र प्रताप सिंह सरगुजा राजपरिवार की धौरपुर शाखा के प्रमुख सदस्य थे। वे स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव को करीब रिश्तेदार सोमेश्च प्रताप सिंह को थे। बिलासपुर जिले की वरिष्ठ पुलिस

अधीक्षक पारुल माधुर ने बताया था कि वीरभद्र प्रताप सिंह बृहरपतिवार को दुर्ग-अंबिकापुर एक्सप्रेस ट्रेन से अम्बिकापुर लौट रहे थे। उन्होंने बताका कि जिस स्थान पर उनका शव बरामद हुआ है वहां से ट्रेन रात एक बजे के आसपास गुजरती एक बज के आसमास गुजरता है। माथुर ने कहा था कि पुलिस को आशंका है कि वीरभद दुर्घटनावश ट्रेन से गिर गए जिससे उनकी मृत्यु हुई है बहीं, राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता गार्टी ने मामवे की न्यायिक जांच की मांग की है। मस्य प्रवक्ता और विधायक अजव मुख्य प्रवक्ता आर विधायक अजव चंद्राकर ने एक बनान में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के रिश्तेदार की ट्रेन से गिरकर हुई मौत को संदिग्ध बताया है और आशंका जताई है कि यह राजनीतिक इत्का का मामला हो सकता है।

जिला स्तरीय स्वतंत्रता समारोह की फाइनल रिहर्सल में

उपायुक्त ने किया ध्वजारोहण

अपन सचदेवा असंध। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोइ की शनिवार को असंध की अनाज मंडी में फुल ड्रैस रिईसल की गई। उपाडुक्त अनीश बादव ने बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय ध्वजारोहण की रस्म अद की तथा परेंड का निरीक्षण किया। इस मौवे पर पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया, एसडीएम मनदीप कुमार, डीएसपी विजय देशवाल, नगराधीश मयंक भारद्वाज, जिला शिक्षा अधिकारी राजपाल चौधरी सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर उपासुक्त अनीश यादव ने कहा कि जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को असंध की अनाज मंत्री में भव्य व शानदार दंग से मनाका जाएगा। समारोह में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे तथा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे तथा परेड का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जिला प्रशासन द्वारा समारोह की गरिमा को देखते हुए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर

हिमाचल विधानसभा ने सामृहिक धर्मांतरण-रोधी विधेयक ध्वनिमत से पारित किया

शिमला, (भाषा)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने मौजूदा धर्मांतरण रोधी कानून में संशोधन वाले एक विधेयक को शनिवार को ध्वनिमत से पारित किया, जिसमें मौजुदा कानून में सजा बढ़ाने और जबरन या लालच देकर सामूहिक धर्मांतरण कराए जाने को रोकने का पावधान है।विधेयक में कारावास की सजा को सात साल से बढ़ाकर अधिकतम 10 साल तक करने का पावधान है। हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 शनिवार को ध्वनिमत से पारित हुआ। विधेयक में सामृहिक धर्मांतरण का उल्लेख है, जिसे एक ही समय में हो या हो से अधिक लोगों किया गया है। जयराम ठाक्नुर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने शुक्रवार को विधेयक पेश किया था। संशोधन विधेयक में हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को और कहोर किया गया है, जो बमुश्किल 18 महीने पहले लागू हुआ था। हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2019 को 21 दिसंबर 2020 को ही अधिसृचित किया गया था। इस संबंध में विधेयक 15 महीने पहले ही विधानसभा में पारित हो चुका था। साल 2019 को विधेयक को भी 2006 को एक कानून की जगह लेने को लिए लाया गया जिसमें कम सजा का प्रावधान था। नये संशोधन विधेयक में बलपूर्वर

धर्मांतरण के लिए कारावास की सजा को सात साल से बढ़ाकर अधिकतम 10 साल तक करने का प्रस्ताव है।विधेयक मे प्रावधान प्रस्तावित है कि कानून के तहत की गयी शिकायतों की जांच उप निरीक्षक से नीचे के दर्जें का कोई पुलिस अधिकारी नहीं करेगा। इस मामले में मुकदमा सत्र अदालत में चलेगा।सत्तारूढ भाजपा धर्मांतरण-रोधी कानून की मुखर समर्थक रही है और पार्टी द्वारा शासित कई राज्यो ने इसी तरह के कानून पेश किए है। यह कदम इस साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सामने आया है।

योगी ने विद्यार्थियों की रैली को राष्ट्रीय ध्वज दिखाकर रवाना किया

लखनऊ ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहरा कर तथा स्कृली छात्र-छात्राओं को तिरंगा उपलब्ध कराकर 'हर घर तिरंगा अभियान' का शुभारम्भ किया। उन्होंने विद्यार्थियों की एक रैली को राष्ट्रीय ध्वज दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री जी की ओर से रैली में प्रतिभाग कर रहे सभी बच्चों को उपहार भी भेंट किये गये। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव एम०एस०एम०ई० एवं सूचना श्री नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना श्री संजय प्रसाद, सूचना निदेशक श्री शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ज्ञातव्य है कि देश की आजादी के 75 वर्ष पुण होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर 11 अगस्त, 2022 तक स्वतंत्रता सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 13 से 15 अगस्त, 2022 तक हर घर तिरंग अभियान का आयोजन किया जा रहा है।

सीएम धामी हर घर तिरंगा अभियान में हुए शामिल

वीर अर्जुन संवाददाना

देहरादून, । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित 'हर घर तिरंगा अभियान' के तहत् चंपावत जिले के दुरस्थ सीमात क्षेत्र राजकीय इंटर दूरस्थ सीमात क्षेत्र राजवीय इंटर कर्तालेज मंच पहुंचकर दिशा अभिकान में शामित्त हुए। सर्व प्रथम मुख्यमंत्री ने बाबा शेरपुनाथ होनों हाथ जोडकर शील झुळाकर प्रणाम किया और कहा यह क्षेत्र तल्लाट्स का क्षेत्र, बाबा शेरपुनाथ की भूमि वादतक में बहुत पुरुक भूमि है और बाबा शेरपुनाथ की कुण भी ह आर बाब बारखनाय का कुछ स आपने मुझे उत्तराखंड प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया है, जिसके लिये मैं सदैव यहां की जनता का दिल से आभारी रहुंगा। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा घोषणा की थी कि मंच में उप तहसील का संचालन करेंगे और आज बाबा गोरखनाथ की कृपा से उप तहसील का संचालन शुरू हो गया है और हम कोशिश करेंगे उप तहसील का संचालन और प्रभावी तरीके से हो।

उन्होंने कहा कि वहां लोगों की सुविधाओं हेतु



हर घर निरंगा अभियान में भाग लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

कमी न हो जिसको लिए हमेश कमा न हा जिसका लिए हमशा प्रयास किया है और अभी अस्पतालों में डाक्टरों की तैनाती भी होने लग्नी है। उन्होंने कहा कि स्कूलों की व्यवस्था, संपर्क मार्गो, बिजली, कनैक्टिबिटी की यहां जो भी दिककत है उसे पूरा करने के लिये प्रस्ताव दिये है और उन पर कार्य हो रहा है। यह मेरा संकल्प है

जाना न पडे इसके लिए सरकार कार्य कर रही है. और आने वाले समय में यह सीमान्त क्षेत्र विकास की धाराओं में आयेगा। भारत को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवाहन पर आज पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन, बान और शान है इसलिए इसे घरों में प्रदर्शित करें। क्योंकि तिरंगा इमारा मान-सम्मान और स्वाभिमान है।

के धर्म परिवर्तन करने के रूप में वर्णित

कि आने वाले समय में यहां के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सुविधाओं में किसी भी प्रकार की

धामी ने रक्षाबंधन कार्यक्रम में किया प्रतिभाग

वीर अर्जुन संवाददाना चंगवत/देहराट्नू, । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को गोरलचौड, मैदान, चंगवत में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर

त्रारामा । क्षाया इस अवस्र पर बडी संख्या में आयी महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी एवं उनके दीर्घ जीवन की कामना की।

संसद गान ... ओ.ए. सं. 536/2021 भारतीय स्टेट बैंक विरुद दिनांक 27.06.20

उन्होंने कहा इस बार का यह पर्व हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण है, आजादी की 75वीं वर्षमांठ पर आज देश आजादी का अमृत जार्जा देश आजादा की अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि 75 साल के कालखण्ड में देश ने जितनी उपलब्धि हासिल की है, न जितना उपलब्धि हा। सल का ह, उसे सजोने का पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आह्वान पर पूरे देश में आजादी

(ii) किसी भी जानकारी हेतु एउवं लिटिगेंट्स संबंधित अधिकारी : 23748478 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरग के तहत 27 जून, 2022 को दिया गया

बंदी सिखों की रिहार्ड को लेकर पंजाब भर में रोष प्रदर्शन

अमतसर (राइल सोनी)। देश की विभिन्न जेलों में लंबे समय नजरबंद अपनी सजाएं पूरी कर . बुके सिखों की रिहाई को लेकर शरोमणि गुरुदारा प्रबंधक कमेटी दवारा देश की 75 वीं वर्षगांठ पर पंजाब भर में जिला मुख्यालयों पर रोष प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर डिप्टी कमिश्नरो को मांगएत्र सौधे गए।

अमृतसर में डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र देने के लिए शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट इरजिंदर सिंह धामी के नेतृत्व में शनिवार को श्री दरबार साहब के बाहर प्लाजा में कमेटी के सदस्य व कर्मी इकट्ठे हुए । प्रदर्शनकारिको ने वहां से डिप्टी कमिश्नर कार्यालय तक रोष मार्च किया गया। रोष प्रदर्शन दौरान कमेटी के अध्यक्ष,सदस्यों व कर्मचरियों ने काली दस्तारे सजाई हुई थी तथा दाधों में बंटी सिम्बों की रिदार्ड संबंधी स्लोगन लिखे बैनर व तख्तियां पकडी हुई थी । डिप्टी कमिश्नर कार्यालय शिरोमणि समिति के अध्यक्ष एडवोकेट धामी ने डिप्टी कमिश्नर की ओर से तैनात एसडीएम हरग्रीत सिंह को मांग पत्र सौंपा। एडवोकेट हरजिंदर सिंह ने कहा 30, 30 साल से देश की जेलों में बंद सिखो से

मनोज सिन्हा ने जम्म-

कश्मीर में हर घर तिरंगा

अभियान की शुरुआत की

श्रीनगर, (भाषा)। जम्मू-कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने

शनिवार को यहां राजधवन के कर्मनारियों के बीच राष्ट्रीय ध्वज बांटकर केंद्र शासित प्रदेश में हर

घर तिरंगा अभियान की शुरूआत की। उपराज्यपाल ने शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि

अर्पित की और कहा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज पिछले 75 वर्षों से

हमारे नागरिकों की आशाओं और

सपनों का प्रतीक है और यह हमे एक शानदार धविष्य को लिए

. गातार मार्गदर्शन प्रदान कर रहा

है। सिन्हा ने सभी नागरिकों से अपने

घरों में तिरंगा फहराने और आजादी

का अमृत महोत्सव की भावना को परे उत्पाह और देशभवित के साथ नाने की अपील की। यह अभियान

15 अगस्त तक चलेगा।

ऐलान करने के बाद भी सिखों की रिहाई नहीं कर रही । उन्होंने कहा यह बेहद मंदभाग है कि देश की आजादी में सबसे अधिक कर्वानियां देने वाले सिखों से धक्का किया ज रहा है। शिरोमणि कमेटी ने प्रधानमंत्री, गृहमंत्री व संबंधित राज्यो के मस्वमंत्रियों से मलाकात के लिए समक मांगने के बावजूद भी कुछ नहीं किया जा रहा जिससे साफ होता है कि सरकारों की मंशा ठीक नहीं है। शिरोमणि कमेटी अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ देश की आजादी की 75 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं जबकि दूसरी और सिखों को गुलामी का एहसास

इंसाफ नहीं किया जा रहा । सरकारे अधिकारों से वीचत रखना संविधान की अवहेलना है। उन्होंने कहा की बंदी सिख उप्रकेद से दो गुना सजाएं भुगत चुके हैं जिस कारण वह अपनी रिहाई का हक रखते हैं। उन्होंने कहा अगर सरकार नहीं जागी तो भविष्य में संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस अवसर पर क्षा जाएगा। इस अवसर पर शिरोमणि कमेटी की कार्यकारिणी सदस्य इरजाप सिंह सुस्तानिक्ड, एडबोकेट भगवंत सिंह सियालका, अमरजीत सिंह,राजेंद्र सिंह मेहता, भाई राम सिंह ,बलजीत सिंह ,सुरेंद्र पाल सिंह, बिनमजीत सिंह कोटला, परमजीत सिह,प्रताप सिह, सतबीर करवाका जा रहा है। उन्होंने कहा सिंह ,बुल्लविदर सिंह रमदास देश के सविधान तहत हर एक को , जोगिदर सिंह अदलीवाल , सर्वजीत सिंह, इत्यादि उपस्थित थे। एक जैसा अधिकार प्राप्त है। परंत्

गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य विरोध प्रदर्शन करने हुए

बंटी सिखों को उनके पानव

ण वसूली न्यायाधिकरण—।।. चतुर्थ तल, जीदन तारा बिरि संसद मार्ग, नई दिल्ली—110 तो.ए. सं. 538/2021 भारतीय स्टेट बैंक

ते अविरंद रूप पूज भी कांगेहर जब पद्म हिसाना टेंबर, महतून पेम्सन फेस-व खण्ड हॅदापूरन् मानियाना -2016म और 5-बी-108 शिवाबी रिटेंद अविरंद केता, ताल अंग्री हेराला प्रदेश-500018 और भारती एकरदेत हि 24 सेक्टर-500018 और भारती एकरदेत हि 24 सेक्टर-500018 कींट प्रकार कांग्री हैं जग्ग्रील जाती ने आफ्नी किन्द्र क्या भारत कांग्रील जाती ने आफ्नी किन्द्र क्या र साथ मांग्रील जाती मांग्री की स्तुप्ती के दाया कर सरवार प्रवास कांग्रील मांग्री की स्तुप्ती के दायार कर रचा है जी प्राणिकण सन्मान

ण के आदेशानुसार, सहायक रजिस्ट्रार, ऋण वसूली प्राधिकरण — ।।, विल्ली

ण वसूली न्यायाधिक चतुर्थ तल, जीवन र संसद मार्ग, नई दिव _{आ.ए. स. 295/2021} भारतीय स्टेट बैंक

श्री संजीव शर्मा एवं अन्य

ानवर आध्रवाजाञ्च एटरपाड नह्न ।वटला—3 यद कि उपर्युक्त वादी ने आपने विरुद्ध रूप 27,14,827/- (रूपये सत्ताहरू लाख चौर हजार आठ चौ सत्ताहरू मात्र) की उस्तूली हे वाद दायर कर रखा है और प्राविकर

प वसूत्री न्यायाधिकरण—।।, चतुर्थ तल, जीवन तारा बिलि संसद मार्ग, नई दिल्ली—110 दल्ली—110001 दिनांक 27.06.2 सक्षय न. .. ओ.ए. सं 231/2021 मि भारतीय स्टेट बैंक विरुद्ध

श्रीमती प्रीति एवं अन्य

अभिकारी

- अमिनी प्रीति चर्च की मर्चन पूरा

पदा— 00, जारपीएस कीसीमें म्दनीमेरि निम्म

पदा— 00, जारपीएस कीसीमें म्दनीमेरि निम्म

प्रित्त में एक्टिक और खना कुछ कुछ कुछ 2020 / 12 डिलीम तत पीरत महानेद कीस पार्ट कि एप्युंच्या मार्टी ने पार्ट में दिवस कर्म पार्ट कि एप्युंच्या मार्टी ने पार्ट में दिवस क्रम पार्ट कि एप्युंच्या मार्टी में व्यादि कीस पार्ट कीस मार्टी की हमार्ट कीस पार्ट कीस मार्टी की हमार्ट कीस पार्ट्य कीस मार्टी कीस मार्टी कीस मार्टी पार्ट पार्ट कीस मार्टी कीस मार्टी कीस मार्टिक कीस मार्टी मार्टिक मार्टिक मार्टिक मार्टिक कीस मार्टिक कीस कीसी

रिकर्ली व्यक्तिस्ता । ह्वाच हान की अर्च जाने कुपाई के मानते में अपनी गाँध के जिए मीटिंग आईटी और पास्तां गिर्स के मीटिंग आईटी और पास्तां गिर्स के मीटिंग आईटी और पास्तां गिर्स के मीटिंग आईटी और जिला अपन्ता (छ) कियों पी पास्तां है हुए क्लेक्ट्रा) विद्यांत्रित मानिंग आक्रियां है की प्रदेश के पास्तां किए की में हुए क्ला के प्रदेश का मानति के मीटिंग के तहत प्रपूर अपटेश के दिया गाँध अप बसूबी आक्रिक्श । 1 दिवलें

ण वसूली न्यायाधिकरण—।।, दिः चतुर्थ तल, जीवन ताच बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001

श्री लखन सिंह एवं अन्य

CIM: 174899UL1992U503366

Registered Office: E-157, Second Floor, Kalka Ji, New Delhi- 110019

Phone: 91-46204000, Fax: 91-11-46204050, Email: info@rodaindia.com. Website: www.ndaindia.com. Statement of Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022

e above is an extract of the detailed format of Qu gulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure in arterly Financial Results are available on the Stock absite (www.ndainsla.com) ancial Results with the Stock Exchange undents! Regulations, 2015. The Full format of the website (www.bseindia.com) and Company's

RASANDIK ENGINEERING INDUSTRIES INDIA LIMITED Registered Office: 14 Roy I.-4 Meo Industrial Area, Sohna, Haryana-1221(3 CNL-1/42104R1998PL 023229) Website www.rasandik.com Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30 June 2022

		The	Year Ended		
SNo	Particulars	30.06.2022	30.06.2021	31.03.2022	31.03.2022
		Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
1	Total Income	5,335.31	4,337.92	5,764.46	20,734.12
2	Profit/(Loss) before tax	42.31	(210.64)	(4.14)	(368.23)
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax	31.68	(158.29)	2.82	(270.79)
4	Total Comprehensive Income for the period (net off tax) (OCI)	31.66	(158.29)	18.05	(255.56)
5	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/-each)	597.50	597.50	597.50	597.50
6	Other Equity	-	-		8,980.22
7	Basic and Diluted Earnings Per Share for the period (Rs.)	0.53	(2.65)	0.05	(4.53)

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results fled with the Stock Exchanges under Regulation 33 or SEBI (Listing Chilipations and Disclosure Requirements). Regulations, 2015. The full format of the Financial Regulation is available or the Investor Set Biolom Cour website www.rasandk.com and under Coronate Section of Set Limits (at www.besinda.com.). The above Unaudited Financial Results have been reviewed and re-of Directors at their respective meetings held on 13th August, 2022. ommended by the Audit Committee and approved by the Boa

अजित पवार ने शिंदे सरकार में दागी मंत्रियों को शामिल करने की निंदा की

का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। सम्पूर्ण देश में अमृत

रहा है। सम्भूण देश में अमूरा महोत्सव के हजारां कार्यं कम सम्मन हो चुके हैं। यह समय देश की आज़ादी के लिये अपना सर्वस्व

ज्यां ह्या करने वाले ज्ञात एवं अज्ञात सेनानियों, के साहस एवं वीरता से परिचित होने एवं उनको

स्मरण करने का भी है।

पुणे, (भाषा)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में दागी मंत्रियों को शामिल किए जाने की आलोचना की और कहा कि सत्तारूढ गठबंधन में भी कुछ लोगों को उनका शामिल किया जाना पसंद नहीं आया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 30 जून को शपथ लेने के एक महीने बाद मंगलवार को अञ्चय प्रविशे को सरकार प्रे शामिल किया गया था। पवार ने दावा किया, राज्य सरकार में कई दागी मंत्रियों को शामिल किया गया है। कई लोगों को यह फैसला पसंद

NDA SECURITIES LIMITED

		Standalone			Consolidated				
Particulars		arter nded	Year Ended	Que	Year Ended				
	30.06.2022	30.06.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.06.2021	31.03.2027			
	Un-Audited		Audited	Un-Audited		Audited			
Total Income	167.17	175.54	802.50	157.35	175.73	803.38			
Net Profit Before Tax	12.72	16.30	86.09	11.97	15.39	82.21			
Net Profit After Tax	9.42	16.38	77.89	8.68	15.47	74.01			
Comprehensive income for the period (comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	-1.39	0.13	7.50	-1.39	0.13	7.50			
Total Comprehensive income	8.03	16.51	85.39	7.29	15.60	81.51			
Paid up Equity Share Capital (FV 10/-)	509.22	509.22	509.22	509.22	509.22	509.22			
Other Equity			319.31			289.89			
Earning Per Share in Rupees (Per Share of Rs.10/- each Basic and Diluted)	0.16	0.32	1.68	0.14	0.31	1.60			